



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2009/अग्रहायण 6, 1931

No. 235]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2009/AGRAHAYANA 6, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 नवम्बर, 2009

सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, चेन्नै पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी

चेन्नै पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नै पत्तन न्यास सीएचपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. सीएचपीटी के प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण ने 7 मार्च, 2006 को पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी द्वारा अनुमोदित किया था। आदेश ने दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2008 तक निर्धारित किया था। इसके बाद दरमान की वैधता को इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून, 2009 के आदेश के द्वारा 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित किया था। जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 20 जून, 2009 को अधिसूचना सं. 106 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। सीएचपीटी दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के अपने पत्र के द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 तक दरमान की वैधता को विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

3. सीएचपीटी ने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। प्रस्ताव में से उठे विभिन्न सवालों पर मांगी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को पत्तन ने हाल ही में प्रस्तुत किया है जो छानबीन की प्रक्रिया के अंतर्गत है। इस प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण पर अंतिम रूप से विचार करने हेतु परिपक्व होने में कुछ और समय लग सकता है।

4. चूंकि प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त होती है और मामले को अंतिम रूप देने के लिए लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक या सीएचपीटी द्वारा दाखिल प्रशुल्क प्रस्ताव पर अंतिम निपटान होने तक, इसमें से जो भी पहले हो विस्तारित करता है।

5. यदि 1 अप्रैल, 2008 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जाएगा।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2009

No. TAMP/36/2005-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/36/2005-CHPT

Chennai Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this the 23rd day of October, 2009)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/36/2005-CHPT, dated 7th March, 2006. The Order prescribed the validity of the SOR till 31st March, 2008. Subsequently, the validity of the SOR was extended by this Authority till 30th September, 2009 *vide* Order dated 17th June, 2009, which is notified in the Gazette of India on 20th June, 2009 *vide* Gazette No. 106. The CHPT *vide* its letter dated 29th September, 2009 has requested to extend the validity of the existing Scale of Rates for further period from 1st October, 2009.

3. The CHPT has filed its proposal for revision of its SOR. Additional information/clarifications requested on various points emerging from the proposal are furnished recently by the port which is under scrutiny. It may take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.

4. Since the validity of the existing SOR has expired on 30th September, 2009 and recognising the time required for finalising the case this Authority extends the validity of the existing SOR of the CHPT till 31st March, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1st April, 2008 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/09-Exty.]